

अपील और निष्पक्ष सुनवाई—WIC कार्यक्रम

यदि आप WIC कार्यक्रम के लाभों के लिए पात्रता के बारे में लिए किसी भी निर्णय से असंतुष्ट हैं तो इस क्लिनिक या साइट पर WIC स्टाफ से बात करें। आप इस स्थल के WIC समन्वयक से बात करने की मांग भी कर सकते हैं।

यदि आप तब भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप राज्य WIC कार्यक्रम द्वारा 800-392-8209 पर फोन कर के एक निष्पक्ष सुनवाई की मांग कर सकते हैं, या आप इस पते पर लिखित में भी सुनवाई की मांग कर सकते हैं:

**Nutrition Services & WIC
PO Box 570
Jefferson City, MO 65102**

आप को अपनी निष्पक्ष सुनवाई की मांग आपकी पात्रता, अपात्रता, निकालने या निलंबित करने के निर्णय लिए जाने की तारीख से **60 दिनों** के अंदर करनी होगी। यदि निष्पक्ष सुनवाई की मांग निर्णय की तारीख के **15 दिनों** के अंदर प्राप्त होती है तो लाभों का प्रदान निष्पक्ष सुनवाई का निर्णय प्रदान किए जाने तक जारी रखा जाएगा।

मांग प्राप्त होने का बाद, WIC निष्पक्ष सुनवाई अफसर **5 कार्यकारी दिनों** के अंदर आपसे संपर्क करेगा, और **21 कार्यकारी दिनों** के अंदर एक सुनवाई निर्धारित की जाएगी। यह सुनवाई निर्धारित समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी, जब तक के आप या आपके प्रतिनिधि समय या स्थान में परिवर्तन की मांग नहीं करते हैं। यह मांग WIC निष्पक्ष सुनवाई अफसर के माध्यम से की जानी चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई अफसर आपकी मांग की तारीख से **45 दिनों** के अंदर आपको और स्थानीय WIC समन्वयक को आपके केस पर लिया निर्णय भेजेगा।

आपको अधिकार है कि आप किसी वकील सहित अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से सहायता या प्रतिनिधित्व प्राप्त करें। आप, आपके प्रतिनिधि या वकील राज्य WIC निदेशक से ऊपर दिए पते पर विस्तृत WIC निष्पक्ष सुनवाई कानून की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

----- अमरीकी कृषि विभाग अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, और रोजगार के आवेदकों के खिलाफ जाति, रंग, मूल राष्ट्रियता, आयु, विकलांगता, लिंग, लैंगिक पहचान, धर्म, प्रतिशोध, और जहाँ लागू हो राजनीतिक मान्यताओं, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक या पैतृक स्थिति, लैंगिक पसंद, या एक व्यक्ति की आय का सारा या कुछ भाग सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम से प्राप्त होता है, या संरक्षित आनुवांशिक जानकारी के आधार पर रोजगार में या विभाग द्वारा संचालित या वित्तपोषित किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में भेदभाव प्रतिबंधित करता है। (सभी प्रतिबंधित आधार सारे काय रमों और/या रोजगारी गतिविधियों पर लागू नहीं होते हैं।)

यदि आप एक नागरिक अधिकार काय रम की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो <https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf> पर, या किसी भी यू एस डी ए कार्यालय में, पाया जाने वाला यू एस डी ए काय रम भेदभाव शिकायत फामर पूरा करें, या फामर का अनुरोध करने के लिए (866) 632-9992 पर कॉल करें।

आप फामर में मांगी गई सभी जानकारी युक्त एक पत्र भी लिख सकते हैं। अपना पूरा किया शिकायत फामर हमें डाक द्वारा U.S. Department of Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 पर, या फैक्स द्वारा (202) 690-7442 पर या ई-मेल द्वारा program.intake@usda.gov पर भेजें।

बहरे, आ सुनने वाले या संभाषण में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्ति यू एस डी ए से संघीय रीले सेवा द्वारा (800) 877-8339 पर; या (800) 845-6136 (स्पैनिश) पर संपर्क कर सकते हैं। यू एस डी ए एक समान अवसर प्रदाता और नियोक्ता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सभी संरक्षित आधार सभी कार्यक्रमों पर लागू नहीं होते हैं, "जाति, रंग, मूल राष्ट्रियता, आयु, विकलांगता और लिंग के पहले छह संरक्षित आधार बाल पोषाहार कार्यक्रमों के आवेदकों और प्राप्तकर्ताओं के लिए छह संरक्षित आधार हैं।